

**प्रेस नोट दिनांक 29-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर ।**

**‘आपरेशन क्लीन’ के तहत थाना शिवनगर डिडई पर मुकदमें से सम्बन्धित कुल 02 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल 22420/-रु0 के राजस्व की प्राप्ति ।**

**अब तक मुकदमें से सम्बन्धित 160 वाहनों की नीलामी जनपद सिद्धार्थनगर में करायी जा चुकी है ।**

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं ।

मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में ‘आपरेशन क्लीन’ 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया । ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया । सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है ।

दिनांक 28.12.2022 को सन्त कुमार, उप जिलाधिकारी(न्यायिक) सिद्धार्थनगर, देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी, बृजेश कुमार, आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना शिवनगर डिडई में लम्बित मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 02 वाहनों जिसमें 01 दोपहिया वाहन (एमवी एक्ट), 01 अदद चार पहिया वाहन (माल मुकदमाती) की नीलामी थाना शिवनगर डिडई परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी । जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल 22420/-रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ । जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा ।

पूर्व में थाना चिल्हिया से 45 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन ,इटवा से 02 वाहन , मिश्रौलिया से 04 वाहन ,शोहरतगढ़ से 98 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है। अब तक कुल 160 वाहनों की नीलामी से कुल 16,01,502/-रु0 राजस्व की प्राप्ति हुई है ।

## प्रेस काफ़्रेस/सराहनीय कार्य दिनांक 29-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर

एस0ओ0जी0/सर्विलांस सेल व थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण, 04 शातिर लूटेरे गिरफ्तार । कब्जे से लूट की शत-प्रतिशत धनराशि, मोबाइल, कागजात व 01 अदद तमंचा मय कारतूस बरामद ।

रामदास पुत्र स्व0 बरसाती साकिन पटनी जंगल थाना व जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा सूचना दिया गया कि मेरा लड़का विवेक कुमार जो खजुरिया में ग्राहक सेवा केन्द्र चलाता है, जिसको दिनांक 24-12-2022 को सायं 6:30 बजे पल्सर सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पटनी जंगल के पास मारपीट कर घायल करके मोबाईल फोन, पैसा व कागजात छीनकर भाग गये थे । जिसके संबंध में थाना सिद्धार्थनगर पर मु0अ0सं0-350/2022 धारा 394 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण कर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था । गठित टीम द्वारा अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29-12-2022 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूट की घटना में शामिल 04 सदस्यों को कठौवा पुल सिद्धार्थनगर से समय सुबह 07:30 बजे गिरफ्तार किया गया । उनके पास से वादी से लूट के 8020 रूपये नकद, 01अदद मोबाइल, बैंक पास बुक आदि बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया । अभियुक्त कदिर हाशमी पुत्र मो0 याकूब हाशमी, मो0 बुद्धनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा मय कारतूस (घटना में प्रयुक्त) भी बरामद किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-**

- 1- कदिर हाशमी पुत्र मो0 याकूब हाशमी, मो0 बुद्धनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- तजम्मूल पुत्र मो0 मुस्लीम सा0 कल्याणपुर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- फैजल खान पुत्र परवेज खान, सा0 महदेवा बाजार थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- सुनील यादव पुत्र परमेश्वर यादव, सा0 सेमरा थाना लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर ।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा बताया गया कि “हम लोग नशे के आदि हैं । विवेक के ग्राहक सेवा केन्द्र पर फैजल व उसकी मां पैसा निकालने व जमा करने जाते थे विवेक एक बार फैजल की मां के खाते से ज्यादा पैसा निकाल लिया था, और कमीशन के रूप में भी ज्यादा पैसे लेता था । जिसको लेकर विवेक से फैजल की बहस हुई थी । फैजल विवेक से बदला लेना चाहता था । वह जानता था कि विवेक पैसा लेकर अकेले घर जाता है । फैजल ने यह बात कदिर और तजम्मूल और सुनील को बताया कि इसे आसानी से लूटा जा सकता है । घटना के दिन फैजल

और सुनील उसके ग्राहक सेवा केन्द्र के पास खड़े थे ज्योंहि विवेक अपना ग्राहक सेवा केन्द्र बन्द कर घर के लिये चला फैजल और सुनील उसके पीछे लग गये, फैजल ने यह बात कदिर व तजम्मूल को बता दिया और वह दोनो पहले से ही दुर्गा इण्टर कालेज सुनसान जगह पर खड़े थे, सुनील और फैजल ज्योंहि स्कूल के मोड़ पर पहुचें कादिर और तजम्मूल विवेक के पीछे लग गये और सुनसान जगह पर रास्ता पुछने के बहाने रोक कर कट्टे से मारपीट कर घायल करके पैसा व मोबाईल छीन लिये सुनील और फैजल मोड़ पर ही रुके थे कि यदि कोई आदमी या गाड़ी आती है तो तजम्मूल और कदिर को बताते। आज हम लोगों लूट के पैसा का बंटवारे करने जा रहे थे, आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

**गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-** कठौवा पुल से समय सुबह 07:30 बजे (थाना सिद्धार्थनगर) से, दिनांक 29-12-2022।

#### **बरामदगी का विवरण-**

- 1- 8020 रु नकद (लूट की शत-प्रतिशत धनराशि)
- 2- 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन (लूटा गया)।
- 3- 01 अदद काली पल्सर (घटना में प्रयुक्त) बाइक UP55J1896
- 4- 01 अदद देशी तमंचा 315 मय 02 अदद जिन्दा कारतूस (घटना में प्रयुक्त)।
- 5- 01 अदद काली बजाज डिस्कवर (घटना में प्रयुक्त) बाइक UP55L7354।

#### **बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

- 1- सतीश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना व जनपद सिद्धार्थनगर मय टीम।
- 2- उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी0 जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3- उ0नि0 श्री शेषनाथ यादव, प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4- उ0नि0 शशांक सिंह, चौकी प्रभारी जेल रोड थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5- उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।
- 6- मु0आ0 राजीव शुक्ला एस0ओ0जी0 टीम।
- 7- मु0आ0 अवनीश सिंह एस0ओ0जी0 टीम।
- 8- आ0विरेन्द्र तिवारी एस0ओ0जी0 टीम।
- 9- मु0आ0 देवेश यादव, मु0आ0 विवेक मिश्रा, आ0अभिनन्दन सिंह सर्विलांस सेल।

## **कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर प्रेस नोट दिनांक 29.12.2022**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन महोदय द्वारा आगामी नूतन वर्ष-2023 के आगमन के अवसर पर गोरखपुर जोन की समस्त जनता को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपील की गयी है कि नये वर्ष का सेलिब्रेशन सुरक्षित, वैधानिक, नैतिक, सद्भावपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से करें तथा इस निमित्त कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करें। इसके अतिरिक्त जोन के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकगण को नये वर्ष पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने हेतु अधोलिखित कड़े निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

सर्वप्रथम यह कि डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जाए कि रात्रि 10.00 बजे के बाद उक्त डीजे आदि किसी भी दशा में न चलाया जाए, साथ ही कोई भी ध्वनि/संगीत इतनी अधिक तीव्रता में न चलायी जाए जिससे आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़े।

नये वर्ष के आगमन पर जनता द्वारा किये जाने वाले सेलिब्रेशन को सुरक्षित, सद्भावपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बनाने हेतु नए वर्ष की पूर्व संध्या अर्थात् दिनांक 31.12.2022 को सांय 5:00 बजे से ही अभियान चलाकर भारी संख्या में पुलिस बल की टीमों गठित करें, जिनके पास शराब पीने वालों की चेकिंग हेतु ब्रीद एनलाइजर व अन्य जरूरी उपकरण भी हों और सादी वर्दी में पुलिस एवं इंटेलिजेंस की टीमों को भी लगाया जाये जिनका कार्य सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, रास्तों, पार्कों, चौराहों, होटलों, सिनेमा हाल एवं मॉल, मोहल्ले के नुककड़ों, रेलवे एवं बस स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखकर शराब पीकर हुड़दंग एवं उदण्डता, वाहन चलाने, बाईक स्टंट बाजी करने, फब्तियां कसने, छेड़खानी करने, झगड़ा- लड़ाई करने वाले आदि व अन्य असमाजिक व अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए सख्त से सख्त कार्यवाही करना होगा। किसी भी दशा में कोई भी अप्रिय घटना घटित न होने पाए। साथ ही यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें कि नए साल के सेलिब्रेशन पर आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो एवं कानून एवं शांत व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकगण को जनता को नए वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षा का संकल्प लेने हेतु भी निर्देश दिये गए हैं।

## प्रेस नोट- साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 29-12-2022

साइबर सेल सिद्धार्थनगर द्वारा अतुल कुमार उपाध्याय के खाते से फ्राड हुए सम्पूर्ण धनराशि रूपये 10000/- को कराया गया वापस ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व नेतृत्व में सुभाष यादव, प्रभारी साइबर सेल व टीम साइबर सेल द्वारा अतुल कुमार उपाध्याय निवासी ग्रा० खरगवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से फ्राड हुए धनराशि को कार्यवाही करते हुए अतुल कुमार उपाध्याय के खाते में रूपये 10000/- वापस कराया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता अतुल कुमार उपाध्याय निवासी ग्रा० खरगवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ने पैसे डबल करने कि लालच में आकर कॉलर के खाते में कुल 10,000/- रूपये डाल दिया । शिकायतकर्ता उपरोक्त को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उसके साथ फ्राड हो गया । उक्त की सूचना साइबर सेल सिद्धार्थनगर को तथा साइबर पुलिस पोर्टल 1930 पर दी गई । उक्त शिकायत पर साइबर सेल की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 29/12/2022 को शिकायतकर्ता अतुल कुमार उपाध्याय के खाते में सम्पूर्ण धनराशि रूपये 10,000/- वापस कराया गया । साइबर टीम के सराहनीय कार्य के लिए अतुल कुमार उपाध्याय द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

नोट- साइबर सेल सिद्धार्थनगर की टीम द्वारा 01/01/2022 से अब तक कुल धनराशि 25,71,739/- रूपये शिकायतकर्ताओं के खातों में कराया जा चुका है वापस ।

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक सुभाष यादव, प्रभारी साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- उप0 निरीक्षक हरिओम कुशवाहा, साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- मुख्य आरक्षी अतुल चौबे साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- मुख्य आरक्षी दिलीप कुमार द्विवेदी साइबर सेल सिद्धार्थनगर ।
- 5- आरक्षी अजय यादव साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 6- आरक्षी आशुतोष जायसवाल साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 7- आरक्षी राहुल मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 8- आरक्षी शिवम् मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।

## साइबर क्राइम से कैसे बचे

- 1-साइबर अपराधी आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसका उपयोग इंटरनेट पर आपकी झूठी पहचान बनाने में उपयोग कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक साइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा/शेयर न करें। जैसे कि आपकी सरकारी आईडी, पासवर्ड, बैंक खाता नम्बर, पिन इत्यादि।
- 2-ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्स्टैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि।
- 3-अपने पासवर्ड को जटिल रखें ( अर्थात अक्षरों – जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों – जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें।
- 4-वेब पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले, वेबसाइट के लिंक की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वेब पता https (“s” से सुरक्षित) से शुरू होता है और एक बन्द ताले के निशान को भी देखें।
- 5-ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/ मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें।
- 6-साइबर अपराध होने पर सूचना तत्काल हेल्प लाईन नं0 1930 पर व पुलिस दें। 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है।
- 7-सिम ब्लाक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें।
- 8-फोन पर कैश रिवार्ड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताये हुये नियमों का पालन न करें।
- 9-ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेंचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/कैंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें।
- 10-अधिक सहायता हेतु साइबर क्राइम सेल सिद्धार्थनगर के मो0न0 8181818200 एवं 8354096891 पर सम्पर्क करें।

❖❖ साइबर ठगों से सावधान! ❖❖ जानकारी और जागरूकता ही बचाव है।

#BeCyberSafe #GoodJobCop #UPPolice

## प्रेस नोट दिनांक 29.12.2022 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

थाना मोहाना पुलिस द्वारा चोरी के दो विद्युत मोटर के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के निर्देशन में संतोष कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मोहाना के नेतृत्व में आज दिनांक 29.12.2022 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत व विगत दिनो हुई चोरी से सम्बन्धित घटना व शीतकालीन ऋतु मे सतर्कता से गश्त करते हुए वी0एस0 इण्टरमीडिएट कालेज ककरहवा के पास से 02 नफर अभियुक्त 1-अवधेश पुत्र स्व0 शिवपूजन साकिन दुल्हाशुमाली टोला ककरहवा बाजार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर, 2-करन वर्मा पुत्र शिवदयाल वर्मा साकिन दुल्हाशुमाली टोला ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद टुल्लु पम्प मय बिजली मोटरयुक्त अलग-अलग बोरे मे पूर्व मे सिकरी बाजार मे कपड़े की दुकान से चोरी की 3000/- रुपये की बरामदगी कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –**

- 01-अवधेश पुत्र स्व0 शिवपूजन निवासी दुल्हाशुमाली टोला ककरहवा बाजार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02-करन वर्मा पुत्र शिवदयाल वर्मा निवासी दुल्हाशुमाली टोला ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01. निरी0 संतोष कुमार सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. उ0नि0 तरुण कुमार शुक्ला थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. उ0नि0 विश्व प्रकाश शुक्ल थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
04. आरक्षी अभय यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
05. आरक्षी अंकित कुमार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 29-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 29-12-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 03 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है, 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म0हे0मु0 सबिता सिंह, म0 आ0 नेहा सिंह व म0 आ0 अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

### **निस्तारित पत्रावली का विवरण-**

01. आशा देवी पत्नी दुर्गेश रस्तोगी साकिन साउखोर ,थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 29.12.2022 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर

थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा विद्यालय जा रही छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोपी तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी” के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में, राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन में सूर्य प्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 29-12-2022 को मु0अ0सं0 238/2022 धारा 354,504,506 भा0द0वि0 व 9/10 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अमित दूबे उर्फ रवि पुत्र रामअजोरे द्विवेदी सेखुई ताज थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर 2. राज उर्फ रजकू पुत्र सत्यप्रकाश चतुर्वेदी 3. अर्पित चतुर्वेदी पुत्र हरिप्रकाश निवासीगण सिसवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

01. अमित दूबे उर्फ रवि पुत्र रामअजोरे द्विवेदी निवासी सेखुई ताज थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. राज उर्फ रजकू पुत्र सत्यप्रकाश चतुर्वेदी निवासी सिसवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. अर्पित चतुर्वेदी पुत्र हरिप्रकाश निवासी सिसवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -**

01. निरी0 श्री शशिभूषण पाण्डेय थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।



02. आरक्षी अखिलेश कुमार मौर्या थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. आरक्षी चन्द्रेश कुमार थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट:दिनांक 29.12.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर**

आज दिनांक 29.12.2022 को अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा प्रभारी यातायात अमरेश कुमार द्वारा अभियान चलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया जिससे कोहरे की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके एवम अवैध पार्किंग तथा मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत जनपद के प्रमुख चौराहों एवम मार्गों पर अवैध रूप पार्क किए गए वाहनों को हटाया गया तथा मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चलाने वाले 02 वाहन चालकों के विरुद्ध ई-चालान की कार्यवाही की गई तथा वाहन चेकिंग अभियान के तहत यातायात नियमों का पालन न करने वाले 38 वाहनों से 34500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।

**प्रेस नोट दिनांक 29-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर ।**

**‘आपरेशन क्लीन’ के तहत थाना शिवनगर डिडई पर मुकदमें से सम्बन्धित कुल 02 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल 22420/-रु0 के राजस्व की प्राप्ति ।**

**अब तक मुकदमें से सम्बन्धित 160 वाहनों की नीलामी जनपद सिद्धार्थनगर में करायी जा चुकी है ।**

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं ।

मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में ‘आपरेशन क्लीन’ 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया । ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया । सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है ।

दिनांक 28.12.2022 को सन्त कुमार, उप जिलाधिकारी(न्यायिक) सिद्धार्थनगर, देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी, बृजेश कुमार, आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना शिवनगर डिडई में लम्बित मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 02 वाहनों जिसमें 01 दोपहिया वाहन (एमवी एक्ट), 01 अदद चार पहिया वाहन (माल मुकदमाती) की नीलामी थाना शिवनगर डिडई परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी । जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल 22420/-रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ । जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा ।

पूर्व में थाना चिल्हिया से 45 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन ,इटवा से 02 वाहन , मिश्रौलिया से 04 वाहन ,शोहरतगढ़ से 98 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है। अब तक कुल 160 वाहनों की नीलामी से कुल 16,01,502/-रु0 राजस्व की प्राप्ति हुई है ।

## प्रेस काफ़्रेस/सराहनीय कार्य दिनांक 29-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर

एस0ओ0जी0/सर्विलांस सेल व थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण, 04 शातिर लूटेरे गिरफ्तार । कब्जे से लूट की शत-प्रतिशत धनराशि, मोबाइल, कागजात व 01 अदद तमंचा मय कारतूस बरामद ।

रामदास पुत्र स्व0 बरसाती साकिन पटनी जंगल थाना व जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा सूचना दिया गया कि मेरा लड़का विवेक कुमार जो खजुरिया में ग्राहक सेवा केन्द्र चलाता है, जिसको दिनांक 24-12-2022 को सायं 6:30 बजे पल्सर सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पटनी जंगल के पास मारपीट कर घायल करके मोबाईल फोन, पैसा व कागजात छीनकर भाग गये थे । जिसके संबंध में थाना सिद्धार्थनगर पर मु0अ0सं0-350/2022 धारा 394 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण कर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था । गठित टीम द्वारा अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29-12-2022 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित लूट की घटना में शामिल 04 सदस्यों को कठौवा पुल सिद्धार्थनगर से समय सुबह 07:30 बजे गिरफ्तार किया गया । उनके पास से वादी से लूट के 8020 रूपये नकद, 01अदद मोबाइल, बैंक पास बुक आदि बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया । अभियुक्त कदिर हाशमी पुत्र मो0 याकूब हाशमी, मो0 बुद्धनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा मय कारतूस (घटना में प्रयुक्त) भी बरामद किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-**

- 1- कदिर हाशमी पुत्र मो0 याकूब हाशमी, मो0 बुद्धनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- तजम्मूल पुत्र मो0 मुस्लीम सा0 कल्याणपुर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- फैजल खान पुत्र परवेज खान, सा0 महदेवा बाजार थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- सुनील यादव पुत्र परमेश्वर यादव, सा0 सेमरा थाना लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर ।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा बताया गया कि “हम लोग नशे के आदि हैं । विवेक के ग्राहक सेवा केन्द्र पर फैजल व उसकी मां पैसा निकालने व जमा करने जाते थे विवेक एक बार फैजल की मां के खाते से ज्यादा पैसा निकाल लिया था, और कमीशन के रूप में भी ज्यादा पैसे लेता था । जिसको लेकर विवेक से फैजल की बहस हुई थी । फैजल विवेक से बदला लेना चाहता था । वह जानता था कि विवेक पैसा लेकर अकेले घर जाता है । फैजल ने यह बात कदिर और तजम्मूल और सुनील को बताया कि इसे आसानी से लूटा जा सकता है । घटना के दिन फैजल

और सुनील उसके ग्राहक सेवा केन्द्र के पास खड़े थे ज्योंहि विवेक अपना ग्राहक सेवा केन्द्र बन्द कर घर के लिये चला फैजल और सुनील उसके पीछे लग गये, फैजल ने यह बात कदिर व तजम्मूल को बता दिया और वह दोनो पहले से ही दुर्गा इण्टर कालेज सुनसान जगह पर खड़े थे, सुनील और फैजल ज्योंहि स्कूल के मोड़ पर पहुचें कादिर और तजम्मूल विवेक के पीछे लग गये और सुनसान जगह पर रास्ता पुछने के बहाने रोक कर कट्टे से मारपीट कर घायल करके पैसा व मोबाईल छीन लिये सुनील और फैजल मोड़ पर ही रुके थे कि यदि कोई आदमी या गाड़ी आती है तो तजम्मूल और कदिर को बताते । आज हम लोगों लूट के पैसा का बंटवारे करने जा रहे थे, आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया ।

**गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय-** कठौवा पुल से समय सुबह 07:30 बजे (थाना सिद्धार्थनगर) से, दिनांक 29-12-2022 ।

#### **बरामदगी का विवरण-**

- 1- 8020 रु नकद (लूट की शत-प्रतिशत धनराशि)
- 2- 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन (लूटा गया ) ।
- 3- 01 अदद काली पल्सर (घटना में प्रयुक्त) बाइक UP55J1896
- 4- 01 अदद देशी तमंचा 315 मय 02 अदद जिन्दा कारतूस (घटना में प्रयुक्त) ।
- 5- 01 अदद काली बजाज डिस्कवर (घटना में प्रयुक्त) बाइक UP55L7354 ।

#### **बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

- 1- सतीश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना व जनपद सिद्धार्थनगर मय टीम ।
- 2- उ0नि0 श्री जीवन त्रिपाठी, प्रभारी एस0ओ0जी0 जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- उ0नि0 श्री शेषनाथ यादव, प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- उ0नि0 शशांक सिंह, चौकी प्रभारी जेल रोड थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 5- उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 6- मु0आ0 राजीव शुक्ला एस0ओ0जी0 टीम ।
- 7- मु0आ0 अवनीश सिंह एस0ओ0जी0 टीम ।
- 8- आ0विरेन्द्र तिवारी एस0ओ0जी0 टीम ।
- 9- मु0आ0 देवेश यादव, मु0आ0 विवेक मिश्रा, आ0अभिनन्दन सिंह सर्विलांस सेल ।

## **कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर प्रेस नोट दिनांक 29.12.2022**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन महोदय द्वारा आगामी नूतन वर्ष-2023 के आगमन के अवसर पर गोरखपुर जोन की समस्त जनता को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपील की गयी है कि नये वर्ष का सेलिब्रेशन सुरक्षित, वैधानिक, नैतिक, सद्भावपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से करें तथा इस निमित्त कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करें। इसके अतिरिक्त जोन के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकगण को नये वर्ष पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने हेतु अधोलिखित कड़े निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

सर्वप्रथम यह कि डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जाए कि रात्रि 10.00 बजे के बाद उक्त डीजे आदि किसी भी दशा में न चलाया जाए, साथ ही कोई भी ध्वनि/संगीत इतनी अधिक तीव्रता में न चलायी जाए जिससे आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़े।

नये वर्ष के आगमन पर जनता द्वारा किये जाने वाले सेलिब्रेशन को सुरक्षित, सद्भावपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बनाने हेतु नए वर्ष की पूर्व संध्या अर्थात् दिनांक 31.12.2022 को सांय 5:00 बजे से ही अभियान चलाकर भारी संख्या में पुलिस बल की टीमों गठित करें, जिनके पास शराब पीने वालों की चेकिंग हेतु ब्रीद एनलाइजर व अन्य जरूरी उपकरण भी हों और सादी वर्दी में पुलिस एवं इंटेलिजेंस की टीमों को भी लगाया जाये जिनका कार्य सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, रास्तों, पार्कों, चौराहों, होटलों, सिनेमा हाल एवं मॉल, मोहल्ले के नुककड़ों, रेलवे एवं बस स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखकर शराब पीकर हुड़दंग एवं उदण्डता, वाहन चलाने, बाईक स्टंट बाजी करने, फब्तियां कसने, छेड़खानी करने, झगड़ा- लड़ाई करने वाले आदि व अन्य असमाजिक व अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए सख्त से सख्त कार्यवाही करना होगा। किसी भी दशा में कोई भी अप्रिय घटना घटित न होने पाए। साथ ही यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें कि नए साल के सेलिब्रेशन पर आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो एवं कानून एवं शांत व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकगण को जनता को नए वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षा का संकल्प लेने हेतु भी निर्देश दिये गए हैं।

## प्रेस नोट- साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 29-12-2022

साइबर सेल सिद्धार्थनगर द्वारा अतुल कुमार उपाध्याय के खाते से फ्राड हुए सम्पूर्ण धनराशि रूपये 10000/- को कराया गया वापस ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व नेतृत्व में सुभाष यादव, प्रभारी साइबर सेल व टीम साइबर सेल द्वारा अतुल कुमार उपाध्याय निवासी ग्रा० खरगवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से फ्राड हुए धनराशि को कार्यवाही करते हुए अतुल कुमार उपाध्याय के खाते में रूपये 10000/- वापस कराया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता अतुल कुमार उपाध्याय निवासी ग्रा० खरगवार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ने पैसे डबल करने कि लालच में आकर कॉलर के खाते में कुल 10,000/- रुपये डाल दिया । शिकायतकर्ता उपरोक्त को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उसके साथ फ्राड हो गया । उक्त की सूचना साइबर सेल सिद्धार्थनगर को तथा साइबर पुलिस पोर्टल 1930 पर दी गई । उक्त शिकायत पर साइबर सेल की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 29/12/2022 को शिकायतकर्ता अतुल कुमार उपाध्याय के खाते में सम्पूर्ण धनराशि रूपये 10,000/- वापस कराया गया । साइबर टीम के सराहनीय कार्य के लिए अतुल कुमार उपाध्याय द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

नोट- साइबर सेल सिद्धार्थनगर की टीम द्वारा 01/01/2022 से अब तक कुल धनराशि 25,71,739/- रूपये शिकायतकर्ताओं के खातों में कराया जा चुका है वापस ।

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक सुभाष यादव, प्रभारी साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- उप0 निरीक्षक हरिओम कुशवाहा, साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- मुख्य आरक्षी अतुल चौबे साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- मुख्य आरक्षी दिलीप कुमार द्विवेदी साइबर सेल सिद्धार्थनगर ।
- 5- आरक्षी अजय यादव साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 6- आरक्षी आशुतोष जायसवाल साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 7- आरक्षी राहुल मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 8- आरक्षी शिवम् मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।

## साइबर क्राइम से कैसे बचे

- 1-साइबर अपराधी आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसका उपयोग इंटरनेट पर आपकी झूठी पहचान बनाने में उपयोग कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक साइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा/शेयर न करें। जैसे कि आपकी सरकारी आईडी, पासवर्ड, बैंक खाता नम्बर, पिन इत्यादि।
- 2-ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्स्टैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि।
- 3-अपने पासवर्ड को जटिल रखें ( अर्थात अक्षरों – जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों – जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें।
- 4-वेब पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले, वेबसाइट के लिंक की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वेब पता https (“s” से सुरक्षित) से शुरू होता है और एक बन्द ताले के निशान को भी देखें।
- 5-ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/ मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें।
- 6-साइबर अपराध होने पर सूचना तत्काल हेल्प लाइन नं0 1930 पर व पुलिस दें। 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है।
- 7-सिम ब्लाक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें।
- 8-फोन पर कैश रिवार्ड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताये हुये नियमों का पालन न करें।
- 9-ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेंचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/कैंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें।
- 10-अधिक सहायता हेतु साइबर क्राइम सेल सिद्धार्थनगर के मो0न0 8181818200 एवं 8354096891 पर सम्पर्क करें।

❖❖ साइबर ठगों से सावधान! ❖❖ जानकारी और जागरूकता ही बचाव है।

#BeCyberSafe #GoodJobCop #UPPolice

## प्रेस नोट दिनांक 29.12.2022 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

थाना मोहाना पुलिस द्वारा चोरी के दो विद्युत मोटर के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के निर्देशन में संतोष कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मोहाना के नेतृत्व में आज दिनांक 29.12.2022 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत व विगत दिनों हुई चोरी से सम्बन्धित घटना व शीतकालीन ऋतु में सतर्कता से गश्त करते हुए वी0एस0 इण्टरमीडिएट कालेज ककरहवा के पास से 02 नफर अभियुक्त 1-अवधेश पुत्र स्व0 शिवपूजन साकिन दुल्हाशुमाली टोला ककरहवा बाजार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर, 2-करन वर्मा पुत्र शिवदयाल वर्मा साकिन दुल्हाशुमाली टोला ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद टुल्लु पम्प मय बिजली मोटरयुक्त अलग-अलग बोरे में पूर्व में सिकरी बाजार में कपड़े की दुकान से चोरी की 3000/- रुपये की बरामदगी कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –**

- 01-अवधेश पुत्र स्व0 शिवपूजन निवासी दुल्हाशुमाली टोला ककरहवा बाजार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02-करन वर्मा पुत्र शिवदयाल वर्मा निवासी दुल्हाशुमाली टोला ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01. निरी0 संतोष कुमार सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. उ0नि0 तरुण कुमार शुक्ला थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. उ0नि0 विश्व प्रकाश शुक्ल थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
04. आरक्षी अभय यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
05. आरक्षी अंकित कुमार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।



## प्रेस नोट दिनांक 29-12-2022 जनपद सिद्धार्थनगर

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 29-12-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 03 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है, 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म0हे0मु0 सबिता सिंह, म0 आ0 नेहा सिंह व म0 आ0 अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

### **निस्तारित पत्रावली का विवरण-**

01. आशा देवी पत्नी दुर्गेश रस्तोगी साकिन साउखोर ,थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 29.12.2022 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर

थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा विद्यालय जा रही छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोपी तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी” के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में, राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन में सूर्य प्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 29-12-2022 को मु0अ0सं0 238/2022 धारा 354,504,506 भा0द0वि0 व 9/10 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अमित दूबे उर्फ रवि पुत्र रामअजोरे द्विवेदी सेखुई ताज थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर 2. राज उर्फ रजकू पुत्र सत्यप्रकाश चतुर्वेदी 3. अर्पित चतुर्वेदी पुत्र हरिप्रकाश निवासीगण सिसवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

01. अमित दूबे उर्फ रवि पुत्र रामअजोरे द्विवेदी निवासी सेखुई ताज थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. राज उर्फ रजकू पुत्र सत्यप्रकाश चतुर्वेदी निवासी सिसवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. अर्पित चतुर्वेदी पुत्र हरिप्रकाश निवासी सिसवा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -**

01. निरी0 श्री शशिभूषण पाण्डेय थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. आरक्षी अखिलेश कुमार मौर्या थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. आरक्षी चन्द्रेश कुमार थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट:दिनांक 29.12.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर**

आज दिनांक 29.12.2022 को अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा प्रभारी यातायात अमरेश कुमार द्वारा अभियान चलाकर वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया जिससे कोहरे की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके एवम अवैध पार्किंग तथा मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत जनपद के प्रमुख चौराहों एवम मार्गों पर अवैध रूप पार्क किए गए वाहनों को हटाया गया तथा मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चलाने वाले 02 वाहन चालकों के विरुद्ध ई-चालान की कार्यवाही की गई तथा वाहन चेकिंग अभियान के तहत यातायात नियमों का पालन न करने वाले 38 वाहनों से 34500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।